



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 8—जुलाई 14, 2006 (आषाढ़ 17, 1928)  
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 8-- JULY 14, 2006 (ASADHA 17, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

| भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं  | पृष्ठ सं. | भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) | पृष्ठ सं. |
|---|-----------|--|-----------|
| भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं  | 515       |  |           |
| भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं   | 595       | भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  | *         |
| भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं  | 9         | भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं   | 1743      |
| भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम   | 803       | भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस   | 289       |
| भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ   | *         | भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं   | *         |
| भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट  | *         | भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं  | 2865      |
| भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) | *         | भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस   | 491       |
| भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं।   | *         | भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण   | *         |

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

|  |                 |   |               |
|--|-----------------|---|---------------|
| PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .  | Page No.<br>515 | PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . . | Page No.<br>* |
| PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .   | 595             | PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .  | *             |
| PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .  | 9               | PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . . . .   | 1743          |
| PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence . . . . .   | 803             | PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . . .   | 289           |
| PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . .   | *               | PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . .  | *             |
| PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . .  | *               | PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . .   | 2865          |
| PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . .   | *               | PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . . . . .   | 491           |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . . | *               | PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . .  | *             |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .   | *               |   |               |

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]  
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 2006

सं. 1/2/2006-सीटी-2--भारत सरकार ने मूलतः अक्टूबर, 1958 में स्थापित और तदनन्तर समय-समय पर पुनर्गठित कपास सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। अब पुनर्गठित बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि

- |  |         |
|--|---------|
| 1. वस्त्र आयुक्त,<br>भारत सरकार<br>वस्त्र मंत्रालय, मुंबई  | अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त सचिव,<br>कपास के प्रभारी, वस्त्र मंत्रालय,<br>नई दिल्ली   | सदस्य   |
| 3. राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी से संबद्ध विज्ञान<br>व प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि  | सदस्य   |
| 4. कृषि आयुक्त व<br>मिशन निदेशक, कपास प्रौद्योगिकी मिशन,<br>कृषि मंत्रालय, कृषि भवन,<br>डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड,<br>नई दिल्ली-110 001                                       | सदस्य   |
| 5. निदेशक, सीआईसीआर-नागपुर<br>व सदस्य सचिव, स्थायी समिति,<br>टीएमसी (एमएम-1)<br>पो. बॉ. नं.-2, शंकर नगर,<br>पो. ओ.-नागपुर-440 010  | सदस्य   |
| 6. निदेशक,<br>कपास विकास निदेशक (एमएम-II)<br>(कृषि एवं सहकारिता विभाग),<br>कृषि मंत्रालय,<br>14, रामजीभाई कामनी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट,<br>पो. बॉ. नं. 1002,<br>मुंबई-400 038 | सदस्य   |

7. प्रबंध निदेशक,  
सीसीआई-टीएमसी (एमएम-III एवं IV),  
भारतीय कपास निगम,  
12वीं मंजिल, एयर इंडिया बिल्डिंग,  
नरीमन प्वाइंट,  
मुंबई-400 021

सदस्य

राज्य सरकार

- |  |       |
|--|-------|
| 8. आयुक्त/निदेशक,<br>(कृषि के प्रभारी),<br>महाराष्ट्र सरकार    | सदस्य |
| 9. आयुक्त/निदेशक,<br>(कृषि के प्रभारी),<br>गुजरात सरकार        | सदस्य |
| 10. आयुक्त/निदेशक,<br>(कृषि के प्रभारी),<br>मध्य प्रदेश सरकार  | सदस्य |
| 11. आयुक्त/निदेशक,<br>(कृषि के प्रभारी),<br>आंध्र प्रदेश सरकार | सदस्य |
| 12. आयुक्त/निदेशक,<br>(कृषि के प्रभारी),<br>कर्नाटक सरकार      | सदस्य |
| 13. आयुक्त/निदेशक,<br>(कृषि के प्रभारी),<br>तमिलनाडु सरकार     | सदस्य |
| 14. आयुक्त/निदेशक,<br>(कृषि के प्रभारी),<br>राजस्थान सरकार     | सदस्य |
| 15. आयुक्त/निदेशक,<br>(कृषि के प्रभारी),<br>पंजाब सरकार        | सदस्य |
| 16. आयुक्त/निदेशक,<br>(कृषि के प्रभारी),<br>हरियाणा सरकार      | सदस्य |

|   |       |  |       |
|---|-------|--|-------|
| 17. आयुक्त/निदेशक,<br>(कृषि के प्रभारी),<br>उड़ीसा सरकार  | सदस्य | कपास बीज विनिर्माता<br>27. श्री प्रभाकर राव,<br>प्रबंध निदेशक,<br>मैसर्स नुजिवीदु सीड्स लि.,<br>7-सी सूर्या टॉवर्स, 105, सरदार पटेल रोड,<br>सिकन्दराबाद-500003                       | सदस्य |
| 18. आयुक्त/निदेशक,<br>(कृषि के प्रभारी),<br>उत्तर प्रदेश सरकार  | सदस्य | 28. श्री संजय बारवाले,<br>प्रबंध निदेशक,<br>मैसर्स महको मोनसान्तो लि.,<br>चौथी मंजिल, रेशम भवन,<br>वीर नरीमन रोड,<br>मुंबई-400020  | सदस्य |
| कपास उपजकर्ता   |       | वस्त्र उद्योग  |       |
| 19. श्री संतोष ठाकरे,<br>मंथन शारदा नगर,<br>अमरावती,<br>महाराष्ट्र  | सदस्य | 29. अध्यक्ष,<br>भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई),<br>छठी मंजिल, नारायण मंजिल,<br>23, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001<br>ई मेल: icmf@vsnl.com                                    | सदस्य |
| 20. श्री विनेन्द्रसिंह दिलिपसिंह जैला,<br>पलॉट नं. 398, सैक्टर 8, गांधी नगर,<br>गुजरात  | सदस्य | 30. अध्यक्ष,<br>ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कोआपरेटिव<br>स्पिनिंग मिल्स लि., केनरा बिल्डिंग,<br>दूसरी मंजिल, डी.एन. रोड,<br>मुंबई-400001  | सदस्य |
| 21. श्री रामदेवसिंह निरुभाई जैला,<br>82, रूपाली सोसायटी, तलजा रोड,<br>हिली ड्राइव, भावनगर-364002<br>गुजरात  | सदस्य | 31. श्री बी.के. पाटोदिया,<br>मैसर्स जीटी टैक्सटाइल्स लि. के<br>उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एवं<br>वर्तमान में टेक्सप्रोसिल, मुंबई के अध्यक्ष<br>228, नरीमन प्वाइंट,<br>मुंबई-400021 | सदस्य |
| 22. श्री रंजीतसिंह डी. झाला,<br>उप सरपंच,<br>गबात ग्राम पंचायत,<br>गबात (दरबारगढ़)<br>तालुका बयाद, जिला सबारकांथा,<br>गुजरात  | सदस्य | 32. सचिव,<br>दक्षिण भारत मिल्स संघ,<br>पो.बॉ. 3783,<br>कोयम्बटूर-641018<br>तमिलनाडु  | सदस्य |
| 23. श्री भागुभाई पटेल,<br>पूर्व मंत्री, गुजरात राज्य,<br>82, इचचानगर सोसायटी, जहांगीरपुरा,<br>सूरत (गुजरात)   | सदस्य | कपास व्यापार   |       |
| 24. श्री बिपिन रमणिक लाल रेवाल,<br>1/11, गायत्रीनगर,<br>“अभिलाषा”, राजकोट-360002<br>गुजरात  | सदस्य | 33. अध्यक्ष<br>नैफेड,<br>1, सिद्धार्थ इन्कलेव,<br>आश्रम चौक, रिंग रोड,<br>नई दिल्ली-110014   | सदस्य |
| 25. श्री जी. जेवियर, प्रधान-कृषि विभाग,<br>श्री के.आर. सीथापति, मुख्य संचालन अधिकारी,<br>(अनुबंध कृषि में एक प्रमुख हस्ती)<br>मैसर्स सुपर सिपिनिंग मिल्स लि.,<br>इल्गी टॉवर, पो.बॉ. 7113, ग्रीन फील्ड,<br>737-डी, पुलियाकुलम रोड,<br>कोयम्बटूर-641045<br>तमिलनाडु | सदस्य | 34. प्रबंध निदेशक,<br>महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव,<br>कपास उपजकर्ता विपणन परिसंघ लि.,<br>मुंबई  | सदस्य |
| 26. डॉ. संजीव पाटिल, एमएससी (कृषि) पीएचडी<br>(कपास प्रजनक)<br>कृषि अनुसंधान स्टेशन<br>महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ,<br>जलगांव-425001,<br>महाराष्ट्र  | सदस्य | 35. अध्यक्ष,<br>ईस्ट इंडिया कॉटन एसोसिएशन,<br>कॉटन एक्सचेंज, कॉटन ग्रीन,<br>मुंबई-400033   | सदस्य |

|  |       |   |            |
|--|-------|---|------------|
| 36. अध्यक्ष,<br>ऑल इंडिया कोऑपरेटिव कॉटन फेडरेशन लि.,<br>सिलवर अर्क, "ए" ब्लॉक, टॉवन हाल के पीछे,<br>एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006                                  | सदस्य | 46. श्री निखिल मेसवानी,<br>कार्यकारी निदेशक,<br>रिलायंस, तीसरी मंजिल, रिलायंस सेंटर,<br>बेलाई एस्टेट, वालचन्द हीराचंद मार्ग,<br>मुंबई (महाराष्ट्र)  | सदस्य      |
| 37. अध्यक्ष,<br>फॉरवर्ड मार्केट कमीशन,<br>एवेरेस्ट, तीसरा तल, 100, मरीन ड्राइव,<br>मुंबई-400 002   | सदस्य | 47. श्री संजय लालभाई,<br>अरविंद मिल्स, 303, स्वागत बिल्डिंग,<br>लाल बंगले के पास,<br>सीजी रोड, अमदाबाद (गुजरात)   | सदस्य      |
| जिनिंग एवं प्रेसिंग क्षेत्र  |       | विद्युतकरघा क्षेत्र   |            |
| 38. अध्यक्ष/सचिव,<br>ऑल गुजरात कॉटन जिनिंग एसोसिएशन,<br>3, राजा शॉपिंग सेंटर,<br>थोल रोड, काडी-382715<br>जिला-मेहसाणा,<br>नॉर्थ गुजरात                           | सदस्य | 48. अध्यक्ष,<br>विद्युतकरघा विकास व निर्यात संवर्द्धन परिषद्,<br>16, पहला तल,<br>मितल चेम्बर्स, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021   | सदस्य      |
| 39. अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक,<br>ऑल इंडिया कॉटन सीड क्रशर्स एसोसिएशन,<br>(एआईसीएससीए),<br>खेतान भवन, छठी मंजिल,<br>198, जमशेद टाटा रोड,<br>चर्चगेट,<br>मुंबई-400020 | सदस्य | हथकरघा क्षेत्र  |            |
| 40. पंजाब हरियाणा कॉटन फैक्टरी मालिक,<br>एसोसिएशन, पुराना सट्टा बाजार,<br>भटिंडा, पंजाब  | सदस्य | 49. अध्यक्ष,<br>हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद्,<br>चैन्नई  | सदस्य      |
| 41. अध्यक्ष,<br>तमिल नाडु कॉटन जिनिंग प्रेसिंग ट्रेडर्स<br>एंड ग्रेअर्स परिसंघ,<br>पोल्लाची-642004,<br>कोयम्बटूर जिला, तमिलनाडु                                  | सदस्य | अन्य नामित सदस्य  |            |
| कपास अनुसंधान एवं विकास  |       | 50. श्री सरदार अत्तरसिंह संतोषसिंह वधवा,<br>बी/15, पूनम मार्केट,<br>रिंग रोड सूरत,<br>गुजरात  | सदस्य      |
| 42. निदेशक,<br>केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान<br>(सरकोट), अडेनवाला रोड, मटंगा,<br>मुंबई (महाराष्ट्र)   | सदस्य | सदस्य-सचिव  |            |
| 43. निदेशक,<br>दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (सिट्रा),<br>पो.बो. नं. 3205, एयरोड्रम पोस्ट,<br>कोयम्बटूर-641014   | सदस्य | 51. श्री बी.ए. पटेल,<br>संयुक्त वस्त्र आयुक्त (कपास),<br>वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,<br>मुंबई-400 020  | सदस्य-सचिव |
| 44. निदेशक,<br>अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ (अटिरा),<br>पोस्ट ऑफिस-अम्बावाडी विस्तार,<br>अहमदाबाद-380015  | सदस्य | 2. बोर्ड सरकार को सामान्यतः कपास नियंत्रण आदेश, 1986 के<br>क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों सहित कपास के उत्पादन, खपत तथा<br>विपणन से संबंधित मामलों पर सलाह देगा और साथ ही सूती वस्त्र मिल<br>उद्योग, कपास उपजकर्ताओं, कपास व्यापार तथा सरकार के बीच संपर्क<br>स्थापित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। |            |
| 45. श्री सुरेश कोटक,<br>अध्यक्ष,<br>कपास एवं संबद्ध उत्पाद (कोटाप),<br>ईस्ट इंडिया कॉटन रिसर्च फाउंडेशन एसोसिएशन,<br>मुंबई                                       | सदस्य | 3. पुनर्गठित बोर्ड के सदस्य 25.06.2008 तक बोर्ड में कार्य करेंगे।   |            |
|  |       | 4. गैर-सरकारी सदस्यों को बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए वित्त<br>मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा।   |            |
|  |       | 5. बोर्ड की बैठक में उपस्थिति केवल सदस्यों तक ही सीमित रहेगी।<br>आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक-एक प्रति सभी<br>संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए।   |            |
|  |       | यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया<br>जाए।  |            |
|  |       | सुदृप्त राय<br>संयुक्त सचिव   |            |

## MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 26th June 2006

No. 1/2/2006-CT-II—The Government of India has decided to reconstitute the Cotton Advisory Board originally set up in October, 1958 and subsequently reconstituted from time to time. The Board, as now reconstituted, will consist of the following members :—

## Sl.No. REPRESENTATIVE CENTRAL GOVERNMENT

- |    |   |          |
|----|---|----------|
| 1. | Textile Commissioner,<br>Government of India,<br>Ministry of Textiles, Mumbai   | Chairman |
| 2. | Joint Secretary, In-charge of Cotton,<br>Ministry of Textiles, New Delhi  | Member   |
| 3. | Representative of Department of<br>Science & Technology Connected<br>with National Remote Sensing Agency  | Member   |
| 4. | Agriculture Commissioner &<br>Mission Director,<br>TMC, Ministry of Agriculture<br>Krishi Bhavan, Dr. Rajendra Prasad<br>Road, New Delhi-110 001  | Member   |
| 5. | Director, CICR-Nagpur & Member<br>Secretary, Standing Committee,<br>TMC (MM-I)<br>P.B. No. 2, Shankar Nagar,<br>P.O. Nagpur-440 010   | Member   |
| 6. | Director,<br>Director of Cotton Development<br>(MM-II), (Deptt. of Agriculture &<br>Co-Operation),<br>Ministry of Agriculture,<br>14, Ramjibhai Kamani Marg,<br>Ballard Estate, P. B. No. 1002,<br>Mumbai-400 038 | Member   |
| 7. | Managing Director,<br>CCI-TMC (MM III & IV),<br>Cotton Corporation of India,<br>12th floor, Air India Bldg., Nariman<br>Point, Mumbai-400 021   | Member   |

## STATE GOVERNMENTS

- |     |   |        |
|-----|---|--------|
| 8.  | Commissioner/Director to Govt.,<br>(Incharge of Agriculture),<br>Government of Maharashtra    | Member |
| 9.  | Commissioner/Director to Govt.,<br>(Incharge of Agriculture),<br>Government of Gujarat        | Member |
| 10. | Commissioner/Director to Govt.,<br>(Incharge of Agriculture),<br>Government of Madhya Pradesh | Member |

- |     |   |        |
|-----|---|--------|
| 11. | Commissioner/Director to Govt.,<br>(Incharge of Agriculture),<br>Government of Andhra Pradesh | Member |
| 12. | Commissioner/Director to Govt.,<br>(Incharge of Agriculture),<br>Government of Karnataka      | Member |
| 13. | Commissioner/Director to Govt.,<br>(Incharge of Agriculture),<br>Government of Tamil Nadu     | Member |
| 14. | Commissioner/Director to Govt.,<br>(Incharge of Agriculture),<br>Government of Rajasthan      | Member |
| 15. | Commissioner/Director to Govt.,<br>(Incharge of Agriculture),<br>Government of Punjab         | Member |
| 16. | Commissioner/Director to Govt.,<br>(Incharge of Agriculture),<br>Government of Haryana        | Member |
| 17. | Commissioner/Director to Govt.,<br>(Incharge of Agriculture),<br>Government of Orissa         | Member |
| 18. | Commissioner/Director to Govt.,<br>(Incharge of Agriculture),<br>Government of Uttar Pradesh  | Member |

## COTTON GROWERS

- |     |   |        |
|-----|---|--------|
| 19. | Dr. Santosh Thakare,<br>Manthan Sharda Nagar,<br>Amaravati,<br>Maharashtra  | Member |
| 20. | Shri Vinendrasinh Dilipsinh Zala,<br>Plot No. 398, Sector 8, Gandhi Nagar,<br>Gujarat   | Member |
| 21. | Shri Ramdevisinh Nirubhai Zala,<br>82, Rupali Society, Talaja Road,<br>Hill Drive, Bhavnagar-364 002,<br>Gujarat                          | Member |
| 22. | Shri Ranjitsinh D. Jhala,<br>Deputy Sarpanch,<br>Gabat Gram Panchayat,<br>Gabat (Darbargarh)<br>Tal. Bayad, Dist. Sabarkantha,<br>Gujarat | Member |
| 23. | Shri Bhagubhai Patel,<br>Ex-Minister, Gujarat State,<br>82, Ichachanagar Society, Jahangirpura,<br>Surat (Gujarat)                        | Member |
| 24. | Shri Bipin Ramniklal Raval,<br>1/11, Gayatrinagar,<br>"Abhilasha", Rajkot-360 002<br>Gujarat  | Member |

|     |  |        |              |   |
|-----|--|--------|--------------|---|
| 25. | Shri G. Xavier, Head-Agricultural Division/Shri K.R. Seethapathy, Chief Operating Officer<br>(A leading entity in contract farming)<br>M/s. Super Spinning Mills Ltd., Elgi Tower, P.B. 7113, Green Fields, 737-D, Puliakulam Road, Coimbatore-641 045, Tamil Nadu | Member | COTTON TRADE |   |
| 26. | Dr. Sanjiv Patil, Msc. (Agri), PhD. (Cotton Breeder)<br>Agricultural Research Station Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Jalgaon-425 001, Maharashtra  | Member | 33.          | Chairman, NAFED,<br>1, Sidharth Enclave, Ashram Chowk, Ring Road, New Delhi-110 014<br>Member   |
|     | COTTON SEED MANUFACTURERS  |        | 34.          | Managing Director, Maharashtra State Co-operative, Cotton Growers' Marketing Federation Ltd., Mumbai<br>Member  |
| 27. | Shri Prabhakar Rao, Managing Director, M/s. Nuziveedu Seeds Ltd., 7-C, Surya Towers, 105, Sardar Patel Road, Secunderabad-500 003  | Member | 35.          | President, East India Cotton Association, Cotton Exchange, Cotton Green, Mumbai-400 033<br>Member   |
| 28. | Shri Sanjay Barwale, Managing Director, M/s. Mahyco Monsanto Ltd., 4th floor, Resham Bhavan, Veer Nariman Road, Mumbai-400 020   | Member | 36.          | Chairman, All India Co-operative Cotton Federation Ltd., Silver Arc, 'A' Block, Behind Town Hall, Ellisbridge, Ahmedabad-380 006<br>Member                              |
|     | TEXTILE INDUSTRY   |        | 37.          | Chairman, Forward Market Commission, Everest, 3rd Floor, 100, Marine Drive, Mumbai-400 002<br>Member  |
| 29. | Chairman, Confederation of Indian Textile Industry (CITI), 6th floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi-110 001<br>Email:icmf@vsnl.com   | Member |              | GINNING & PRESSING SECTOR   |
| 30. | President, All India Federation of Co-operative Spinning Mills Ltd., Canara Building, 2nd floor, D.N. Road, Mumbai-400 001   | Member | 38.          | President/Secretary, All Gujarat Cotton Ginning Association, 3, Raja Shopping Centre, Thol Road, Kadi-382 715<br>Dist. Mehsana, North Gujarat<br>Member                 |
| 31. | Shri B. K. Patodia, Vice Chairman & Managing Director of M/s. GTN Textiles Ltd., & Presently, Chairman of TEXPROCIL, Mumbai, 228, Nariman Point, Mumbai-400 021  | Member | 39.          | Chairman/Managing Director, All India Cotton Seed Crushers Association (AICSCA), Khetan Bhavan, 6th floor, 198, Jamshed Tata Road, Churchgate, Mumbai-400 020<br>Member |
| 32. | Secretary, The Southern India Mills' Association P. B. 3783, Coimbatore-641 018<br>Tamil Nadu  | Member | 40.          | Punjab Haryana Cotton Factory Owners' Association, Old Satta Bazaar, Bhatinda, Punjab<br>Member   |
|     |  |        | 41.          | President, Tamil Nadu Cotton Ginning Pressing Traders & Growers Federation, Pollachi-642 004, Coimbatore District, Tamil Nadu<br>Member                                 |
|     |  |        |              | COTTON RESEARCH & DEVELOPMENT   |
|     |  |        | 42.          | Director, Central Institute for Research in Cotton Technology (CIRCOT), Adenwala Road, Matunga, Mumbai<br>Member  |

|     |   |        |  |                                  |
|-----|---|--------|--|----------------------------------|
| 43. | Director,<br>South India Textile Research<br>Association (SITRA)<br>Post Box No. 3205, Aerodrome Post,<br>Coimbatore-641 014                            | Member | OTHER NOMINATED MEMBERS  |                                  |
| 44. | Director,<br>Ahmedabad Textile Industry's<br>Research Association (ATIRA),<br>P.O. Ambawadi Vistar,<br>Ahmedabad-380 015                                | Member | 50. Shri Sardar Attarsingh<br>Santoshsingh Vadhava,<br>B/15, Poonam Market,<br>Ring Road Surat,<br>Gujarat   | Member                           |
| 45. | Shri Suresh Kotak,<br>Chairman, Cotton & Allied<br>Products (COTAAP)<br>Research Foundation of East<br>India Cotton Association, Mumbai                 | Member | MEMBER-SECRETARY   |                                  |
| 46. | Shri Nikhil Meswani,<br>Executive Director<br>Reliance, 3rd Floor, Reliance Centre,<br>Bellard Estate, Walchand Hirachand<br>Marg, Mumbai (Maharashtra) | Member | 51. Shri B. A. Patel,<br>Joint Textile Commissioner (Cotton)<br>Office of the Textile Commissioner,<br>Mumbai-400 020  | Member-<br>Secretary             |
| 47. | Shri Sanjay Lalbhai,<br>Arvind Mills, 303, Swagat Building,<br>Near Lal Bungalow,<br>CG Road, Ahmedabad (Gujarat)                                       | Member | 2. The Board will advise the Government generally on<br>matters pertaining to production, consumption and marketing<br>of Cotton including matters within the purview of the Cotton<br>Control Order, 1986 and also provide a forum for liaison<br>between the Cotton Textile Mill Industry, the Cotton Growers,<br>the Cotton Trade and the Government. |                                  |
| 48. | Chairman,<br>Powerloom Development & Export<br>Promotion Council, 16, 1st floor,<br>Mittal Chambers, Nariman Point,<br>Mumbai-400 021                   | Member | 3. The members of the reconstituted Board will serve on<br>the Board up to 25.06.2008.   |                                  |
| 49. | Chairman,<br>Handloom Export Promotion<br>Council (HEPC),<br>Chennai  | Member | 4. The Non-official members will be allowed TA/DA for<br>attending the meetings of the Board in accordance with the<br>instructions of the Ministry of Finance.  |                                  |
|     |   |        | 5. The attendance in the meeting of the Board is restricted<br>to the members only.  |                                  |
|     |   |        | Ordered that a copy of this Notification be communicated<br>to all concerned.  |                                  |
|     |   |        | Ordered also that it be published in the Gazette of India.   |                                  |
|     |   |        |  | SUDRIPTA ROY,<br>Joint Secretary |